

August 08, 2025

Ref:- GHL/2025-26/EXCH/43

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654 Symbol: MEDANTA

**Sub:** Newspaper Publication - Unaudited Financial Results of the Company for the first Ouarter ended June 30, 2025.

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, the copies of Newspaper clippings of the Unaudited Financial Results of the Company, for the first quarter ended June 30, 2025, published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Friday, August 08, 2025.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer M. No. A17035

Encl: a/a













Place : Bengaluru

Date : August 07, 2025

FINANCIAL EXPRESS

# **O**Tracxn

### TRACXN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200KA2012PLC065294 Regd. Office: No. L-248, 2nd Floor, 17th Cross, Sector 6, HSR Layout,

Bengaluru, Karnataka, India, 560102 Ph: +91 90360 90116, Email: investor.relations@tracxn.com, Website: www.tracxn.com

#### STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on August 07, 2025, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").

The full Financial Results along with the Limited Review Report, are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com / www.nseindia.com and have also been posted on the Company's website at https://w.tracxn.com/investor-relations/ quarterly-results which can be accessed by scanning the QR code given:



Tracxn Technologies Limited

Neha Singh Managing Director & Chairperson (DIN - 05331824)

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



Regd. Off: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160002; Telephone: +91 172 2653807, 5005024

Works: Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140108 Distt. Rupnagar, Punjab Telephone: +91 1881 240403-240406 Website: www.megastarfoods.com; Email: cs@megastarfoods.com 14th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEGASTAR FOODS LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 24, 2025 through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 & vide its General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read together with MCA General Circular 14 & 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular no 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular no 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular no 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars"), permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of Members at a common venue. The AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with the MCA Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Acts") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In Compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the Members whose e-mail addresses are registered. available with the Company/Depository Participants. In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant (DP). Notice of AGM and Annual Report will be made available on the website of the Company i.e. a

https://www.megastarfoods.com/ and on website of BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/ and also on the website of CDSL at Member will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in the Notice

of AGM through remote e-voting/e-voting at AGM. The manner of casting vote through remote e-voting/evoting at AGM for members holding shares in dematerialized mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM.

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday September 10, 2025 till Tuesday, September 16, 2025 (both days Inclusive) for the purpose of AGM. Cut off date to determine the eligibility of the members to cast their vote: - Wednesday, September 17, 2025

SAT KARTAR SHOPPING LIMITED

Regd Office: 603, 6th Floor, Mercantile House, K.G. Marg, New Delhi -110001

Tel No. + 011-40550741 | website:- www.satkartar.in. Email id: info@satkartar.in

NOTICE OF THE 13™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & DIVIDEND

NOTICE is hereby given that the 13th (Thirteenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sat

Kartar Shopping Limited ("the Company") is scheduled to be be held on Friday 29th Day of August, 2025 at 10:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the

In accordance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated 19th September

2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular

No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the

Securities and Exchange Board of India (SEBI), the company has sent Notice of the 13th AGM and Annual

Report in a web- link to access the same through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s

(DP). The company shall send a physical copy of the Annual Report FY 2024-2025 to those members who

The Notice of 13th AGM and Annual Report is also available on the Company's website www.satkartar.in and websites of National Stock Exchange of India Limited i.e. at <u>www.nseindia.com</u> and website of "CDSL"

www.evotingindia.com. The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company has also sent letter to shareholders,

whose e-mail IDs are not registered with Company/RTA/DP, providing the weblink of Company's website

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for

(a) Pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read

with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing

Regulations"),and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is pleased to provide the facility of remote e-voting to

the shareholders, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM.

2025 ("cut-off date"), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote

Members holding shares either in physical mode or dematerialized mode, as on Friday, August 22,

e-voting) of CDSL at https://www.evotingindia.com. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as

on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby

informed that the business, as set out in the Notice of 13th AGM will be transacted through voting by

The remote e-voting period commences on Tuesday 26th August, 2025, at 09:00 AM (IST) and will end

on Thursday 28th August, 2025, at 05:00 PM (IST). The remote e-voting module shall be disabled for

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share

capital of the Company as on Friday, August 22, 2025, ('cut-off date'). The facility of remote-voting

shall also be made available during the Meeting and shall be disabled 15 minutes after the conclusion

of the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote

e-voting shall be able to exercise their right to vote during the Meeting. Once the vote on a resolution

d) Members who have cast their vote through remote e-voting may attend / participate in the 13th AGM

 Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of

AGM for the process to be adopted for obtaining the User ID and Password for casting the vote.

(g) Comprehensive guidance on (a) remote e-voting before the meeting (b) participation in and joining of the Meeting through VC/QAVM, (c) e-voting during the meeting and (d) registration of email address

The Board of Directors have appointed Rawal & Co, Company Secretaries (Membership No. 43231 and

CP No. 22431) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM process in a

The results of the remote e-voting and e-voting during AGM shall be declared within two working

days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report

shall be placed on the website of the company at www.satkartar.in and on the website of CDSL at

Members who would like to express their views / ask questions during the AGM may register

themselves as a speaker by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP & Client ID/ Folio No., PAN & Mobile no. at info@satkartar in on or before Monday August

Notice is also given payment of Dividend @0.70/- per equity share for the year ended March 31, 2025 if approved by members at the 13th AGM and will be paid within 30 days from date of Annual General

Meeting to those Members whose name(s) appear in the Company's Register of Members as on the

The dividend will be paid through Electronic Clearing Service or any other means to those shareholders

who have updated their Bank Account details. For shareholders who have not updated their bank

account details dividend warrants / demand draft/ cheques will be sent to their registered addresses. Shareholders are requested to update their KYC with their depositories (for shares held in Demat form)

and with the Company's Registrar & Transfer Agent (for shares held in Physical form) to receive the

distributed by the Company will be taxable in the hands of shareholders. To enable the compliance

with TDS/ withhold tax from the dividend, the shareholders are requested to update their PAN with

the Company/RTA (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case

of shares held in demat mode) to get the benefit of Lower TDS rate and to enable the Company to provide the TDS Certificates to the shareholders. The shareholders are requested to provide necessary

documents to avail the tax benefits by sending an email to info@satkartar.in before August 22, 2025

you can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911 All

grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh

Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon

Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an

or contact at toll free no. 1800-21-09911

Members facing any technical issue in login can contact CDSL

Members facing any technical issue in login can contact NSDL

helpdesk by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com

helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022

By the order of the Board of Director

For Sat Kartar Shopping Limited

Sonal Seth

(a) Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to

email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

Helpdesk details

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System

m) Shareholders are also informed that in terms of provision of Income Tax Act 1961, dividend paid and

www.evotingindia.com immediately after declaration and submission to the Stock Exchange.

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information

is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently

but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again at the AGM.

are available in the 'Notes' section of the Notice to AGM.

fair and transparent manner.

record date Friday, August 22, 2025.

login through Depository i.e. NSDL and CDSL

dividend into their account.

Login type

securities

securities

Place: New Delhi

Date: August 08, 2025

Individual Members holding

in demat mode with CDSL

in demat mode with NSDL

Individual Members holding

specifically request for the same at info@satkartar.in mentioning their Folio No./ DP Id and Client Id.

For Megastar Foods Limited

Place: Chandigarh Date: 07.08.2025

business as detailed in the Notice of the 13th AGM.

from where the Annual Report for FY 2024-25 can be accessed.

nspection as per the procedure provided in the Notice of AGM.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM & Dividend Payment

Vikas Goe Chairman cum Managing Director DIN: 05122585

#### **MKVentures Capital Limited** CIN: L17100MH1991PLC059848

STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED

Maharashtra, India CIN:L31300PN2000PLC202408 Phone: +91-020-30514000,

Fax: +91-020-30514113 Email: secretarial@stl.tech; Website: www.stl.tech

NOTICE TO PHYSICAL SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-

PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, we wish to inform that SEBI has decided to open a special window for

re-lodgement of transfer requests of physical shares from July 07, 2025 to January 06, 2026 i.e. for a period of six (6) months to enable the physical shareholders to re-lodge request(s) to transfer their physical shares

{including those requests that are pending with the listed Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA"), as on

This is for the information of those physical shareholders of Sterlite Technologies Limited (the "Company") who

would have lodged the request to transfer their physical shares prior to April 01, 2019 and the said request(s) had

As per aforementioned SEBI circular, the shares, for which required documents along with the original share

certificate(s) are re-lodged for transfer during this special window, shall be issued only in DEMAT mode. Hence,

a copy of the DEMAT account's Client Master List (CML) of the shareholder(s) is required to be provided along

with all other requisite documents to the Company or M/s. KFin Technologies Limited, RTA of the Company, at

**LUMBINI EDUCATION PRIVATE LIMITED** 

B-99, Hari Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017, Rajasthan • Mob.: 8529758464

E-mail: lumbinieducationpvtltd@gmail.com • CIN: U85500RJ2023PTC086224

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL

RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>™</sup> JUNE 2025

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results for the quarter ended

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on

website of BSE Limited (BSE): www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website (URL:

https:// https://www.lumbinieducation.com/) (2) For the other line items referred in regulation 52(4) of the

listing Regulations, pertinent disclosures have been made to BSE Limited (BSE): www.bseindia.com and can be

accessed on website of BSE Limited (BSE); www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website

(URL: https://www.lumbinieducation.com/) (3) The Accounting policies adopted in the preparation of

the financial results are consistent with those followed in the previous period/year unless otherwise stated (4)

Previous year's/periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to the current

June, 30 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and

been rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise.

In case of any queries or any assistance required in this regard, please contact:

the below address by the deadline of January 06, 2026.

**Sterlite Technologies Limited** 

4<sup>th</sup> Floor, Godrej Millennium,

Koregaon Road 9, STS 12/1,

Pune 411001 Maharashtra Email: secretarial@stl.tech

Tel. No.: 020- 30514000

**Particulars** 

Website: www.stl.tech

Total Income from Operations

Paid up Equity Share Capital

Place: Jaipur Date: 06,08.2025

1. Basic

2. Diluted

Net Profit/(Loss) for the period before tax

Net Profit/(Loss) for the period After tax

Reserves(excluding Revaluation Reserve

Earnings Per Share (of Rs. 10/-)(Not annualised)

Place: Pune

Date: August 08, 2025

Registered Office:. 4th Floor, Godrej Millennium, Koregaon Road 9, STS 12/1, Pune - 411001

M/s Kfin Technologies Ltd.

Selenium Tower B, Plot 31-32,

Toll Free No.: 1800-309-4001

Website: www.kfintech.com

Quarter

Ended

30-06-2025

(Unaudited)

6,91,036.01

(1,88,837.53)

(1,88,837.53)

1,000.00

(1,76,327.02)

(1,75,327.02)

(18.88)

(18.88)

Email: einward.ris@kfintech.com

Hyderabad – 500 032

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Company Secretary & Compliance Officer (ACS 24346)

For Sterlite Technologies Limited

Amount in hundreds except otherwise stated

Quarter

Ended

30-06-2024

(Unaudited)

6,31,162.86

(1,30,540.32)

(1,30,540.32)

1,000.00

(2,43,370.07)

(2,42,370.07)

(13.05)

(13.05)

For Lumbini Education Private Limited

Sushil Kumar Agarwal

Director/Compliance Officer

Mrunal Asawadekar

Year

ended

31-03-2025

(Audited)

57,91,195.78

1,29,388.69

1,25,340.27

1,000.00

12,510.52

13,510.52

12.53

12.53

Registered office: Express Towers, 11th floor, Nariman point, Mumbai-400021 Email: info@mkventurescapital.com, Tel: 91 22 6267 3701, URL:https://mkventurescapital.com/ Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025 **STANDALONE FINANCIAL RESULTS:** (Amount in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Sr.		1	Quarter Ended		Year Ended
No.	Particulars	30-Jun-25 Unaudited	31-Mar-25 Audited	30-Jun-24 Unaudited	31-Mar-25 Audited
1	Total Income from Operations (Net)	649.17	340.34	809.66	2,752.07
2	Net $Profit(+)/(Loss)(-)$ from ordinary				
	Activities after tax	424.47	(534.84)	514.45	937.70
3	Total Other Comprehensive income/(loss) (Net)	424.47	(532.76)	514.45	939.78
4	Paid up equity share capital-				
	(Face value of Rs. 10/- each)	384.35	384.35	384.35	384.35
5	Other equity (including reserves)	-	-	-	9,877.38
6	Earning per share (EPS) (before Extraordinary items)				
	(of Rs.10/- each - not annualised):				
	(a) Basic (Rs.)	11.04	(13.92)	13.39	24.40
	(b) Diluted (Rs.)	11.04	(13.92)	13.39	24.40
7	Earning per share (after extraordinary items)				
	(of Rs.10/- each - not annualised):				
	(a) Basic (Rs.)	11.04	(13.92)	13.39	24.40
	(b) Diluted (Rs.)	11.04	(13.92)	13.39	24.40

## Notes:

- The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 07, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter ended June 30, 2025 is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) This Unaudited Standalone Financial Results has been prepared in accordance with the Companies
- (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable The Company is a Non Banking Financial Company and involved in two business activities: Loan &
- investment and Consultancy. Accordingly, both the activities are separately reported in accordance with Ind AS 108 "Operating Segment".
- Figures in the previous period have been regrouped, recomputed wherever necessary, in order to make
- The figures for the quarter ended 31st March, 2025 represent balancing figures between the audited figures for the year ended 31st March, 2025 and year to date figures upto 31st December, 2024 which were subjected to limited review by statutory auditors.

Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025

CO	NSOLIDATED FINANCIAL RESULTS :	(Amount	in Rs. Lakhs,	unless otherv	vise stated)	
Sr.	Sr Sr		Quarter Ended			
No.	Particulars	30-Jun-25 Unaudited	31-Mar-25 Audited	30-Jun-24 Unaudited	31-Mar-25 Audited	
1	Total Income from Operations (Net)	655.17	346.67	812.43	2,768.75	
2	Net Profit(+)/(Loss)(-) from ordinary Activities					
	after tax	428.96	(530.20)	516.52	949.04	
3	Total Other Comprehensive income/(loss) (Net)	428.96	(528.12)	516.52	951.12	
4	Paid up equity share capital-					
	(Face value of Rs. 10/- each)	384.35	384.35	384.35	384.35	
5	Other Equity (including reserve)	-	-	-	9,904.55	
6	Earning per share (EPS) (before extraordinary items)					
	(of Rs.10/- each - not annualised) :					
	(a) Basic (Rs.)	11.16	(13.79)	13.44	24.69	
	(b) Diluted (Rs.)	11.16	(13.79)	13.44	24.69	
7	Earning per share (EPS) (after extraordinary items)					
	(of Rs.10/- each - not annualised) :					
	(a) Basic (Rs.)	11.16	(13.79)	13.44	24.69	
	(b) Diluted (Rs.)	11.16	(13.79)	13.44	24.69	

## Notes:

- The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 07, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter ended 30th June, 2025 is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com).
- This Unaudited Consolidated Financial Results has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company is a Non Banking Financial Company and involved in two business activities: Loan & investment and Consultancy. Accordingly, both the activities are separately reported in accordance with Ind AS 108 "Operating Segment".
- Figures in the previous period have been regrouped, recomputed wherever necessary, in order to make
- The figures for the quarter ended 31st March, 2025 represent balancing figures between the audited figures for the year ended 31st March, 2025 and year to date figures upto 31st December, 2024 which were subjected to limited review by statutory auditors. By order of the Board

For Mkventures Capital Limited Sd/-

Madhusudan Kela **Managing Director** DIN: 05109767



## **Global Health Limited**

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi - 110024, India Corp. Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana 122001, India Tel: +91 124 483 4060 | E-mail: compliance@medanta.org | Website: https://www.medanta.org

### EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in Millions except EPS)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2025	Quarter ended 30.06.2024	Year ended 31.03.2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	10,308.37	8,610.77	36,923.15
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,885.49	1,436.52	6,971.53
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	2,081.41	1,436.52	6,472.57
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	1,589.82	1,062.64	4,813.18
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,592.15	1,042.37	4,806.48
6	Paid up equity share capital	537.54	537.01	537.17
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		80,440,440	33,326.93
8	Earnings Per Share (of Rs 2/- each) - Basic: Diluted:	5.92 5.91	3.96 3.96	17.92 17.92

#### EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025 (₹ in Millions)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2025	Quarter ended 30.06.2024	Year ended 31.03.2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	8,821.56	7,578.62	32,041.46
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,786.54	1,466.24	6,729.43
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,982.46	1,466.24	6,230.47
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	1,519.64	1,085.51	4,615.28
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,521.89	1,065.64	4,605.60

Place: Gurugram

KALYANI


Document

Cut-off date of e-voting

be used for casting the vote.

Date: 07 August 2025

- 1) These results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 07 August 2025. The result have been subjected to the limited review by the statutory auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available at the company's website https://www.medanta.org.



By order of the Board for Global Health Limited Dr. Naresh Trehan Chairman and Managing Director

## KALYANI FORGE LIMITED

KALYANI FORGE

Regd. Office: Shangrila Gardens, 1st Floor, 'C' Wing, Opp. Bund Garden, Pune: 411001. Phone: 020 26167645 Fax: (02137) 252344 CIN: L28910MH1979PLC020959 Website: www.kalyaniforge.co.in

NOTICE OF THE 46TH ANNUAL GENERAL MEETING

## Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, August 29,

2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM"),to transact the

business as set out in the Notice of AGM, in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time, read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with all other earlier and relevant circulars issued in this regard from time-to-time (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). In accordance with the above referred Circulars, Act and Listing Regulations, the Notice of AGM and the Annual Report

for FY 2024-25 has been sent by email to the members whose email IDs are registered with the Depository Participants ("DPs") or MUFG Intime India Private Limited, the Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company. The dispatch of the Notice of AGM through email has been completed on August 7, 2025. For those members whose email addresses are not registered, a letter providing a weblink for accessing Notice of the AGM and Annual Report is being sent to those members via post.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2024-25 are available on the website of the Company and can be downloaded by clicking the following links:

AGM Notice	https://www.kalyaniforge.co.in/investors/annual-general-meeting/	
Annual Report 2024-25	https://www.kalyaniforge.co.in/investors/annual-reports/	
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	M is also available on the websites of the of the Stock Exchanges: BSE Limit	

(www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in In terms of the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Shareholders the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed during the AGM, using electronic voting facility provided by the RTA.

Shareholders holding shares as of the cut-off date may cast their votes using an electronic voting system ("remote evoting"). All Shareholders may please note the following:

Friday, August 22, 2025

Commencement of remote e-voting period	Tuesday, August 26, 2025 at 9.00 a.m. (IST)
End of remote e-voting period	Thursday, August 28, 2025 at 5.00 p.m. (IST)
Remote e-voting will be disabled by the RTA upon	expiry of the aforesaid period.
remote e-voting will be disabled by the remote	rexpiry of the aloresald period.

The facility for voting through the e-voting system will also be made available during the AGM. Shareholders attending the AGM through the VC/OAVM facility who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote during the AGM. Members are requested to note that: 1. Members who have already cast their vote through remote e-voting can attend the AGM but will not be entitled to

- cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a member, they shall not be allowed to change it subsequently or vote again.
- 2. Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be eligible to avail the e-voting facility. Voting rights shall be reckoned on the number of paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder/Beneficial Owner (in case of dematerialized shareholding) as on the cut-off date.
- 3. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialized or physical form is provided in the Notice of AGM.
- 4. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password by sending an e-mail request to enotices@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with the RTA for e-voting, then his/her existing User ID and Password can

To support the green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode are requested to: For shares held in dematerialized form - Register the e-mail IDs with concerned DP

For shares held in physical form - Furnish KYC details prescribed in Form ISR-1 and other relevant forms (available on the Company's website at https://www.kalyaniforge.co.in/investors/investor-services/Form-ISR-1\_Requestfor-registering-PAN-KYC-and-update-etc.pdf and e-mail it to the RTA at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or by writing to them at M/s MUFG Intime India Private Limited, Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Off, Balkrishna Sakharam Dhole Patil Rd, near Ganesh Temple, Pune, Maharashtra 411001.

Members may attend the AGM through VC/OAVM by visiting the RTA's online platform ; https:// instameet.linkintime.co.in. Members who need technical assistance before or during the AGM may contact the RTA at the designated email id instameet@linkintime.co.in.

New Delhi

For Kalyani Forge Limited

Mrs. Rohini G. Kalyani **Executive Chairperson** Din: 00519565

Place: Pune

Date: August 7,2025

epaper.financialexpress.com

Date : August 07, 2025 Company Secretary & Compliance Officer

| Place : Mumbai

मांग सूचना की तिथिः 18/07/2025

FINSERV

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी 2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014 **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल दिवाकर कॉम्प्लेक्स, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, कलेक्ट्रेट सर्किल, सी के होंडा के पास, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001, शाखा कार्यालयः सर्किल, प्रथम तल, मारुति कॉम्प्लेक्स, बांसवाडा रोड, कलेक्टर कार्यालय के पीछे, मोहन कॉलोनी, बांसवाडा, राजस्थान 327001

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८-(१) एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा १३(४) के अंतर्गत (परिशिष्ट-IV)

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स **बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचना(एं) यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को निर्गत की थीं जिनमें उन्हें सुचना में अंकित राशि का उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता(गण)/सह—ऋणकर्ता(गण)/ गारंटर(गण) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स **बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** की ओर से यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षिक्तयों के प्रयोगान्तर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्नांकित अनुसार राशि(यों) तथा इन राशियों पर भावी ब्याज हेतु बीएचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता(औं/णारंटर(रों) के नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम) शाखाः चित्तौड़गढ़ लैन नं. H5E4HLD0312446 और H5E4HLT0319177 1. शिव लाल छीपा (उधारकर्ता)	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश इस प्रकार वर्णित हैं: पट्टा संख्या 2138, ग्राम—अकोला भूपालसागर चित्तौड़गढ़ कपासन राजस्थान—312202, पूर्वः श्री रोडीलाल	मांग सूचना तिथि एवं राशि 09 अप्रैल 2025 और रु. 25,32,363/— (पच्चीस लाख बत्तीस हजार	आधिपत्य की तिथि 4 अगस्त 25
2. अंजना देवी (सह—उधारकर्ता) दोनों का पताः अखाड़ा चौक चित्तौड़गढ़—312205	का घर, पश्चिम रोड, उत्तर श्री चत्रभुज कुम्हार का घर, दक्षिणः श्री सुंदरलाल चिहपा का घर	तीन सौ तिरसठ रुपये मात्र)	
शाखाः बांसवाड़ा लैन नं. 475RMSEB692496  1. सतीश कुमार चरपोटा (उधारकर्ता)  2. मधुकांत चरपोटा (सह—उधारकर्ता) दोनों का पताः वार्ड नंबर 32 भागकोट कल्याण कॉलोनी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा—327001	गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जिसका वर्णन इस प्रकार है: वाके कलाजी की डूंगरी तहसील और जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) 327001, पूर्व— प्लॉट संख्या 9 का शेष भाग, पश्चिम:— रोड 25' चौड़ा, उत्तर रोड 40' चौड़ा, दक्षिणः प्लॉट संख्या 11 का शेष भाग	20 मई 2025 और रु. 3,78,913 / – (केवल तीन लाख अड्डहत्तर हजार नौ सौ तेरह रुपये)	6 अगस्त 25

स्थानः चित्तौड्गढ्, बांसवाड़ा , दिनांकः 08.08.2025

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

## TALBROS सीआईएन - L74210HR1986PLC033018

पंजीकृत कार्यालयः 74–75–76. सेक्टर–6, फरीदाबाद, हरियाणा 121008 फोन # 0129-4284300 फैक्स # 0129-4061541 वेबसाइट: www.talbrosaxles.com, ईमेल: cs@talbrosaxles.com

30 जून, 2025 को समाप्त <u>तिमाही के लिए</u>

		<u></u>			(लाख रूपयों में)
丣.	≅	₹	माप्त तिमाह	ही	समाप्त वर्ष
я∙. सं.	विवरण	30 06 2025 (अलेखापरीक्षित)	31 03 2025 (लेखापरीक्षित)	30 06 2024 (अलेखापरीक्षित)	31 03 2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	12,211.53	12,515.96	10,360.94	44,608.89
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर और असाधारण और/या असामान्य मदों से पूर्व)	768.25	756.24	641.19	2,720.47
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	768.25	756.24	641.19	2,720.47
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	558.25	531.71	472.19	2,017.09
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए (कर के बाद) व्यापक लाम/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं}	558.25	531.71	472.19	2,019.61
6	इक्विटी शेयर पूंजी	507.65	507.65	507.65	507.65
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)				14931.32
22	Set 10 (10 to 10 t			(31 मार	र्व, 2025 तक)
8	प्रति शेयर आय (प्रति रु. 10/-) (जारी और परिसमाप्त संचालन के लिए) -				
	1. मूलः	11.00	10.47	9.30	39.78
	2. परिसमाप्तः	11.00	10.47	9.30	39.78

स्थानः फरीदाबाद

अ) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों की विस्तृत जानकारी का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.talbrosaxles.com) पर उपलब्ध है।

ब) उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 07 अगस्त. 2025 की आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है।

स) ये अलेखापरीक्षित परिणाम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंर्तगत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अंर्तगत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

द) वर्तमान तिमाही की पुष्टि के लिए जहां भी आवश्यक पाया गया है, संगत तिमाही के आंकड़ों को वर्तमान तिमाही की संगत तिमाही के साथ पुनः समूहीकृत / पुनः वर्गीकृत किया गया है।



बोर्ड के लिए और उसकी ओर से (अंकुश जिंदल) कार्यकारी निदेशक डीआईएनः 03634690 निवासी मकान नंबर 37, सेक्टर-55, फरीदाबाद, हरियाणा 121004

दिनांकः 07 अगस्त 2025



## ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड

सीआईएन: L85110DL2004PLC128319

पंजीकृत कार्यालयः मेदांता : मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110 024 कॉर्पोरेट कार्यालयः मेदांता : द मेडिसिटी, सेक्टर : 38, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 001 टेलीफोन: +91 124 483 4060 | ई-मेल: compliance@medanta.org | वेबसाइट: https://www.medanta.org

> 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(कारो मिलियन में पति अंश आय के अतिरिक्त)

क्र. संख्या	विवरण	30.06.2025 को समाप्त तिमाही	30.06.2024 को समाप्त नौ माह	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
		(अनअंकेक्षित)	(अनअकेक्षित)	(अकेक्षित)
1	संचालनों से आय	10,308.37	8,610.77	36,923.15
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मदों के पूर्व)	1,885.49	1,436.52	6,971.53
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	2,081.41	1,436.52	6,472.57
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात)	1,589.82	1,062.64	4,813.18
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम (कर पश्चात्) एवं अन्य अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) सम्मिलित	1,592.15	1,042.37	4,806.48
6	प्रदत्त समता अंश पूँजी	537.54	537.01	537.17
7	संचित (पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त)			33,326.93
8	प्रति अंश आय (रुपये 2 प्रति)			
	मूल	5.92	3.96	17.92
	अवमिश्रित	5.91	3.96	17.92

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही हेतु

क्र. संख्या	विवरण	30.06.2025 को समाप्त तिमाही	30.06.2024 को समाप्त नौ माह	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	संचालनों से आय	8,821.56	7,578.62	32,041,46
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मदों के पूर्व)	1,786.54	1,466.24	6,729.43
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात)	1,982.46	1,466.24	6,230.47
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	1,519.64	1,085.51	4,615.28
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) एवं अन्य अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सम्मिलित	1,521.89	1,065.64	4,605.60

1. इन परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा एवं अनुशंसा की गई तथा तदनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 7 अगस्त 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया। परिणाम कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा

सीमित समीक्षा के विषय-स्वरुप हैं।

स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः 7 अगस्त 2025

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। समेकित एवं एकल तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर उपलब्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट https://www.medanta.org पर भी उपलब्ध है।



मंडल के आदेशानुसार कते ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हस्ताक्षर/-डॉ॰ नरेश त्रेहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः मुंबई

दिनांक: 5 अगस्त, 2025



उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि. पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, क्रमांक २७, तीसरा "ए" क्रॉस, १८वां मेन, छठा

ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक–560095 **क्षेत्रीय कार्यालयः**— जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट संख्या डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उत्तर प्रदेश)

(ਗਿਦਾਸ-8(1)] जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / गारंटर को नीचे दी गई तारीखों पर डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें नोटिस की तारीख के 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कर्जदारों / जमानतदारों को कहा गया है। कर्जदार/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि का भृगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह-उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन के नियम 8 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह—उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता / बंधककर्ता, सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह-उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि. को प्रत्येक खाते के लिए ब्याज और अन्य शल्कों / व्यय के साथ यहां नीचे उल्लिखित राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / बंधक कर्ता का नाम एवं पता	अचल	संपत्ति का विवरण	<b>13(2) सूचना दिनांकः</b> 28.04.2025
1.श्रीमती सुषमा कंवर पत्नी नवीन सिंह निवासी पटवार केंद्र के पास नयागांव कोटा, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, कोटा, राजस्थान—324010, 2. श्री नवीन सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह उर्फ रामस्वरूप सिंह, भील बस्ती नयागांव इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, कोटा, राजस्थान—324010	अंश (दक्षिण भाग), जिसका क्षेत्रफल 480 रोझड़ी, उप तहसील मं राजस्थान, जिसकी सीग् पश्चिमः भूखंड संख्या दक्षिणः भूखंड संख्या 2	1 (कोना) का वह समस्त भाग एवं खसरा संख्या 263 / 106 का भाग, वर्ग फुट है, कोना, अशोक नगर, ग्राम ंडाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, नाएँ इस प्रकार हैं: सीमाएँ: पूर्वः रास्ता, 2, उत्तरः भूखंड संख्या 1 का भाग, 20। संपत्ति श्रीमती सुषमा कंवर पत्नी ख्याः 1 आप में से की है।	सूचना राशिः 20-04-2025 तक रु.६,45,596 / - कब्जे की तिथिः 04.08.2025 ऋण खाता संख्या 2224250260000009
1. पंकज यादव उर्फ पंकज यादव पुत्र उधारकर्ता 200, पूर्वी पाल विस्तार यो चरण, श्रमिक कॉलोनी दरबी के पास, भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान—342 पत्नी पंकज यादव उर्फ पंकज यादवर 200, पूर्वी पाल विस्तार योजना, बासनी कॉलोनी दरबी के पास, झालामंड, के.यू जोधपुर, राजस्थान—342005   3. पवन व सह—उधारकर्ता/गारंटर कलानी, बिहार—802132 इसके अलावारू पवन व खसरा नं. 183, शिव वाटिका योजना, ज	ाजना, बासनी द्वितीय , झालामंड, के.यू.एम. 2005। 2. प्रियंका देवी सह—उधारकर्ता/गारंटर द्वितीय चरण, श्रमिक ,एम. भगत की कोठी, कुमार पुत्र भोला सिंह. कैमूर (भभुआ), कुमार पुत्र भोला सिंह	कृषि भूखंड संख्या सी, खसरा संख्या 183, शिव वाटिका योजना, ग्राम संगरिया, तहसील एवं जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है, जिसकी सीमा इस प्रकार है: सीमाएँ: पूर्वः भूखंड संख्या ए और बी, पश्चिमः भूखंड संख्या डी, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य का भूखंड। यह संपत्ति प्रियंका देवी पत्नी पंकज यादव उर्फ पंकज यादव, जो आप में से क्रमांक 2 हैं, की है।	13(2) सूचना दिनांकः

स्थानः नोएडा,दिनांकः 08.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि



### एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन: L65922MH1989PLCO52257

**पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः** 131 मेकर टावर्स, "एफ" परिसर, 13वीं मंजिल, कफ परेड, मुंबई – 400 005. टेलीफोनः +91 22 22178600, फैक्सः +91 22 22178777 ईमेलः lichousing@lichousing.com। वेबसाइटः www.lichousing.com

> छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई-वोर्टिंग की जानकारी

ततद्वारा सूचित किया जाता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड (कंपनी) की छत्तीसवी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को अपराह 3.30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस ('भी/सी')/अन्य ऑडियों–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 मई, 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों को पढ़ा, जिसमें सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या ०९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ परिपत्र संख्या ०९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर, 2024 (एमसीए परिपत्र) है, ने कंपनियों को 30 सितंबर, 2025 तक एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सचीबद्धता विनियम) और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, 131 मेकर टावर्स, "एफ" परिसर, 13वीं मंजिल, कफ परेड, मुंबई -400005, महाराष्ट्र में आयोजित मानी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिया कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा मेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात एमयएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेंट लिमिटेड) / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है जिन्होंने कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है और जिनके नाम शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 तक लाभार्थी स्थिति सूची में दिखाई देते हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.lichousing.com और MUFG Intime India Pvt Ltd की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर अपलोड किए गए हैं। हालाँकि, यदि कोई सदस्य उक्त दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करना चाहता है, तो वह co secretarial@lichousing.com पर एक पत्र या ई–मेल भेज सकता है, जिसमें उसकी / उसकी क्य्य और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर, जैसा भी मामला हो, उद्धत किया जा सकता है, ताकि कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट उसके अनुरोध का अनुपालन कर सकें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (ॅं.प्) के अनुसरण में, कंपनी अपने शेयरघारकों को इंस्टावोट—एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेंट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से ''रिमोट ई-वोटिंग'' (अर्थात वार्षिक आम बैठक के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से ई–वोटिंग) की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, ताकि वे उक्त सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकें।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को "कट-ऑफ-डेट" के रूप में निर्धारित किया है।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी खामियों के विवरण में कट—ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को दर्ज हैं, रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं:

 वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने की अंतिम तिथिः 05 अगस्त, 2025 हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः मंगलवार, 26 अगस्त, 2025

प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समयः गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 सायं 5:00 बजे ( आईएसटी ) और उसके बाद, एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

 जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान इंस्टाग्रामेट के माध्यम से वोट कर सकेंगे।

 मेसर्स बीपीपी एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे (सदस्यता संख्याः एसीएस 47312 और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस संख्या: 19902 और फर्म पंजीकरण संख्या: S2018MH565200) को कंपनी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच करने हेतु स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त

 घोषित परिणामों की सूचना तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई), एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेंड को दी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट www.lichousing.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

 वे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं और जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी स्वामित्व विवरण में कट-ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को दर्ज हैं, ये कंपनी की वेबसाइट www.lichousing.com और एमयू एफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/ पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना देख सकते हैं। ऐसे सदस्य ई-वोटिंग निर्देशों के तहत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का

 रिमोट ई—वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत सहायक उपाध्यक्ष — ई—वोटिंग, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083. को भेजी जा सकती है। दूरमाष: 022 - 49186000. ईमेल: enotices@in.mpms.mufg.com या सदस्य https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक की सूचना में ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के बारे में भी बताया गया है। वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–जोखा कंपनी की वेबसाइट www.lichousing.com पर भी उपलब्ध हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के विस्तृत निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उद्देश्य / गतिविधि	ई-मेल आईडी
ई-बोटिंग	enotices@in.mpms.mufg.com instancet@in.mpms.mufg.com@
ई—मेल आईडी और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत करना/अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यध्वक्ता के रूप में पंजीकरण/दस्तावेजों का निरीक्षण	
कोई भी व्यक्ति जो इस सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और बैठक में मतदान करना चाहता है	

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हस्ताक्षरकर्ता / -वर्षा हरदासानी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी U GRO

कब्जा स्चना(अचल

संपत्ति के लिए)

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड चौथी मंजिल, टौंवर ३, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत।

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यु ग्रों कैंपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना घ्प्है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील र्स बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विशय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ऑ) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	1. अरिहंत अलॉयज 2. ललित कुमार जैन 3. गीता देवी जैन लैन — UGDELMC0000014938	मांग सूचना की तिथिः 14/07/2025 सूचना राशिः रु. 21,84,827/— 07/07/2025 तक
<b>सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरणः— मॉडलः</b> सीएनसी लेजर कटिंग मशीन 1500X3000 निर्माताः सुपरकट वेल्डिंग इंडस्ट्रीज इनवॉइसः 1372		

1. ब्रदर ट्रल्स इंजीनियरिंग वर्कस सचना राशिः रु. 21,21,598.00/-2. सीमा कश्यप 3. मुकेश कुमार ਕੀਜ – UGDELMC0000021366 19 / 07 / 2025 तक सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरणः- मॉडलः किंगस्टन ब्रांड, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर KVM&850 ार्माताः आर.एच. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइसः MFG&065

1. जे एस टूल्स एंटरप्राइजेज मांग सूचना की तिथिः 18/07/2025 2. अजीत कुमार 3. संजू कुमार सूचना राशिः रु. 22,73,003.00 / -लैन – UGDELMC0000038567 18 / 07 / 2025 तक सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:— मॉडलः जिको ब्रांड वर्टिकल मशीन सेंटर ZM&860 निर्माताः जिको मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइस ः जिको / 24–25 / 09

1. साई इंजीनियरिंग मांग सूचना की तिथिः 18/07/2025 सुचना राशिः रु. 23,94,846.00 / -2. तिलक राज 3. प्रेम लता 15 / 07 / 2025 तक ਕੈਜ - UGDELMC0000056361 **पुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरणः**— मॉडलः वाइब्रेंट 800 **निर्माताः** मैकपावर सीएनसी मशीन्स आईटीडी—वीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर इनवॉइसः 24—25 / एम—559

1. साई स्टील मांग सचना की तिथिः 14/07/2025 2. सागर गोयल 3. चारु शर्मा सचना राशिः रु. 29.28,176.00 / -ਕੈਜ – HCFDELMLN00001041988 07 / 07 / 2025 तक

सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:— मॉडलः फाइबर लेजर किटंग मशीन Q41530 GH मॉडल—1.5 किलोवाट निर्माताः एपेक्स मशीनरी टेक्नोलॉजी इनवॉइसः 23—24/003

मॉडलः सीएनसी हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मॉडल स्विफ्ट 25-12 निर्माताः हिंदुस्तान हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइसः 2022-23ध्ळ1062

मांग सूचना की तिथिः 14/07/2025 1. शिव एंटरप्राइजेज सूचना राशिः रु. 30,85,641.00 / -2. संजीव गोस्वामी 3. शिक्षा गोस्वामी 07/07/2025 तक लैन- UGDELMC0000034785 सुरक्षित संपत्ति(याँ) का विवरण:— मॉडलः फ्लेक्सन प्रिंटिंग प्रेस—36' — 6 रंग निर्माताः फ्लेक्सन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइस : 262/22—23

मांग सूचना की तिथिः 14/07/2025 1. श्री जी एंटरप्राइजेज सूचना राशिः रु. 31,91,522.00 / -2. नरेंद्र गोयल 3. अनीता 4. राकेश गोयल 07 / 07 / 2025 तक

लैन - HCFDELMLN00001015426 UGDELMC0000019514 सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:— मॉडलः 1. प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडलः NX 100 टन सर्वो

2. प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडलः NX 140 टन सर्वो निर्माताः नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइस : NGM@075 मॉडलः इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक्सट्रीम 210 टन सर्वो

निर्माताः नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इनवॉइस : NMG@23&24@803 1. एक्सट्रीम दूलिंग सॉल्यूशन मांग सूचना की तिथि: 18/07/2025 2. विवेक शर्मा 3. प्रियंका शर्मा सूचना राशिः रु. 22,42,858.00 / -

लैन – UGDELMC0000015678 18/07/2025 तक

सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:— मॉडलः सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर VL1050 निर्माताः एस एंड टी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनवॉइस : 232466023 उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत

और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यु ग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागु करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। युग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और / या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, युग्नो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानुनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय युग्नो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर. जिसके तहत उधारकर्ताओं को यग्नो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका / निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः दिल्ली हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी) यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com दिनांकः 08/08/2025

सत करतार शॉपिंग लिमिटेड



सीआईएन संख्याः L52590DL2012PLC238241 पंजीकृत कार्यालय: 603, छठी मंजिल, मर्केंटाइल हाउस, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली -110001 दूरभाष संख्याः +011-405507411 वेबसाइटः www.satkartar.in ईमेल आईडी: info@satkartar.in 1.5वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-बोटिंग की जानकारी और लाभाग

एतदृद्धारा सचित किया जाता है कि सत करतार शॉपिंग लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 13वीं (तेरहवीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार २९ अगस्त, २०२५ को सबह १०:०० बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ऑएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि 13वीं एजीएम की सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय हारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5

मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुसार, नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेवी) हारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसार कंपनी ने 13वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन सदस्यों के पास जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं, एक वेब-लिंक पर भेज दी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट विश वर्ष 2024-2025 की एक भौतिक प्रति भेजेगी जो विशेष रूप से info@satkartar.in पर अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए इसके लिए अनुरोध करेंगे।

13वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.satkartar.in और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nscindia.com और सीढीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 07 अगस्त, 2025 को पुरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम

36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/आस्टीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेबलिक प्रदान किया गया है जहाँ से वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखीं जा सकती है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश तथा लाभांश भुगतान

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और अन्य लागु प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिवम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के चिनियम 44, और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैटकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानकों के अनुसार, कंपनी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की खविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, ताकि वे एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने बोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 ("कट-ऑफ तिथि") तक भौतिक मोड या डीमैटरियलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से https://www.evotingindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वीट डाल सकते हैं। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि" सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रवंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-चोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सभी सदस्यों को एतदहारा खचित किया जाता है कि 13वीं वार्षिक आम बैठक को सचना में निधरित कार्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से ही किया जाएगा

(b) रिमोट ई-बोटिंग अवधि मंगलवार 26 अगस्त, 2025 को प्रात: 9:00 बजे (भा.मा.स.) से प्रारंभ होकर गुरुवार 28 अगस्त, 2025 को सार्थ 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी

(c) सदस्यों के मतदान अधिकार शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 ('कट-ऑफ लिथि') तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। बैठक के दौरान रिमोट-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी और बैठक समाप्त होने के 15 मिनट बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है. बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(d) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट डाला है, वे 13वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन वे वार्षिक आम बैठक में ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(e) जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने के बाद और अंतिम तिथि से पहले शेयर प्राप्त किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वोट डालने के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेत् अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए वार्षिक आम बैठक की सचना देखें। (f) जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे वार्षिक आम बैठक की सूचना को केवल सुचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

(g) (क) बैठक से पहले रिमोट ई-बोटिंग (ख) वीसी/ओएबीएम के माध्यम से बैठक में भागीदारी और शामिल होना, (ग) बैठक के दौरान ई-बोटिंग और (घ) ईमेल पते का पंजीकरण पर व्यापक मार्गदर्शन एजीएम की सचना के 'नोटस' अनुभाग में उपलब्ध है। (h) निदेशक मंडल ने रावल एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यना संख्या 43231 और सीपी संख्या 22431) को निष्मक्ष और पारदशी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।

 (i) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, स्टॉक एक्सचेंज में घोषणा और प्रस्तुत करने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.satkartar.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराए जाएँग।

(j) जो सदस्य वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पुछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए info@satkartar.in on पर सीमवार 25 अगस्त, 2025 तक अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।

(k) यदि 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 0.70/- की दर से लाभांश के भुगतान की भी सूचना दी जाती है और यह भुगतान वार्षिक आम बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में शुक्रचार, 22 अगस्त, 2025 की रिकॉर्ड तिथि

 जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर लिया है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से लाभांस का भुगतान किया जाएगा। जिन रोयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड डाफ्ट/चेक भेजे जाएँगे। शेयरधारकों से अनसेध है कि वे अपने खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपनी डिपॉजिटरी (बीमैंट रूप में रखे गए शेयरों के लिए) और कंपनी के रिजस्टार एवं ट्रांसफर एजेंट (भीतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए) के साथ अपना केवाईसी अपडेट करें।

(m) शेयरधारकों को यह भी सुचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतान और वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। लाभांश पर टीडीएस/कर कटौती का अनुपालन सुनिक्षित करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि ये कंपनी/आरटीए (भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें ताकि उन्हें कम टीडीएस दर का लाभ मिल सके और कंपनी शेयरधारकों को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान कर सके। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 22 अगस्त, 2025 से पहले info@satkartar.in पर ईमेल भेजकर कर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएँ।

(n) यदि आपको सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फी नं. 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाडंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोक्षर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को भेजी जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800

(o) डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैंट मोड में प्रतिभतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण		
सीडीएसएल के साथ डीमैंट मोड में प्रतिभृतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	लॉगिंग में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सद helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।		
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	ल्लॉगन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य, evoting@nsdl.com अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल सकते हैं।		

निदेशक मंडल के आदेशानुसार सत करतार शॉपिंग लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली सोनल सेट दिनांकः ४ अगस्त, 2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

epaper.jansatta.com